

प्रेस नोट

***थाना अमरोहा नगर क्षेत्रान्तर्गत गैंगस्टर अभियुक्त/चन्दन लकडी तस्कर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी कार्यवाही, करीब 05 करोड 63 लाख रूपयों की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.06.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर, तहसीलदार सदर के नेतृत्व में थाना अमरोहा नगर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के अवैध चंदन लकडी तस्कर व गैंगस्टर अपराधी कमर अहमद अन्सारी पुत्र वहाजुद्दीन व शाकिर उर्फ बन्टी पुत्र कमर अहमद अन्सारी निवासीगण मौ0 नौगजा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 05 करोड 63 लाख रूपयों की चल/अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्तगण कमर अहमद व शाकिर उर्फ बन्टी चोरी छिपे चन्दन की लकडी गैर प्रान्त से लाकर तस्करी का अवैध कारोबार कर अपराध से अवैध रूप से धन अर्जित कर मकान का निर्माण/मरम्त तथा चल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अवैध रूप से चंदन की लकडी की तस्करी करने व गैंगस्टर सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण कमर अहमद व शाकिर उर्फ बन्टी अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था को भंग करते हुये अवैध कार्य जैसे गैर प्रान्त से चन्दन की लकडी की तस्करी कर उसकी कटाई-छटाई करते हुये अमरोहा व आस-पास के जनपद में तस्करी का काम करते थे जिनके विरुद्ध अमरोहा नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी जिसके उपरान्त नियमानुसार अभियुक्तगण कमर अहमद व शाकिर उर्फ बन्टी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।



कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

1. कुल 5,63,56,477/- रूपयें की चल/अचल सम्पत्ति।

(मौहल्ला नौगजा में 02 मकान व चारपहिया वाहन व दोपहिया वाहन)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त कमर अहमद-

1. मु0अ0सं0 337/20 धारा 379,411,120बी,109 भादवि 2/33, 41/42/42, 64 भारतीय वन अधि0 व 4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 338/02 धारा 77 भारतीय वन अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

3. मु0अ0सं0 45/21 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शाकिर उर्फ बन्टी-

1. मु0अ0सं0 337/20 धारा 379,411,120बी,109 भादवि 2/33, 41/42/42, 64 भारतीय वन अधि0 व 4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 45/21 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA